

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट 11 जून को शुरू हो रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (26 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वार्षिक फार्मर्स मार्किट (Farmers' Market), मेरिडियन क्रेडिट यूनियन (Meridian Credit Union) के द्वारा पेश की जा रही है और यह 2022 के सीजन के लिए 11 जून को शुरू करते हुए खुल रही है। यह साप्ताहिक मार्किट, 8 अक्टूबर तक, सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक, प्रत्येक शनिवार चलेगी, चाहे बारिश हो या धूप। इस वर्ष, यह प्यारी मार्किट, गेज पार्क (Gage Park) में जॉर्ज स्ट्रीट (George Street) और मेन स्ट्रीट साउथ (Main Street South) के बीच में, वेलिंगटन स्ट्रीट पर स्थित होगी।

यह सीजन ऐसा साप्ताहिक कार्यक्रम पेश कर रहा है, जिसका हर कोई आनंद लेगा, जिसमें शामिल हैं:

- मार्किट के पसंदीदा किसान, विक्रेता और लोकल शिल्पकार, ताज़े फलों और सब्जियों और हाथ से बने सामान के साथ वापस लौटेंगे;
- ब्रैम्पटन फोक क्लब (Brampton Folk Club), बी-जैज़ (B-Jazzed), डी.जे. जोनाथन शॉ (DJ Jonathan Shaw) आदि के द्वारा बैंडस्टैंड पर लाइव मनोरंजन;
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) के द्वारा ऑन-साइट आर्ट एक्टिवेशन; तथा
- और भी बहुत कुछ!

डाउनटाउन ब्रैम्पटन में परिवर्तन जारी है

डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) में परिवर्तन जारी है। रीजन ऑफ पील (Region of Peel), क्षेत्र में वाटरमेन और सेनिटरी सीवरों को बदलने के लिए एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई सड़कें बंद रहेंगी। कृपया मार्किट जाने से पहले योजना बनाएं।

म्युनिसिपल पार्किंग के बारे में अपडेट्स, brampton.ca पर प्राप्त किए जा सकते हैं या ब्रैम्पटन ट्रांजिट (Brampton Transit) के द्वारा वहां पहुंचें। अपनी ट्रिप, [ट्रिपलिनक्स \(Triplinx\)](http://Triplinx.com) के साथ एडवांस में प्लान करें।

2022 की ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट को उदारतापूर्वक, अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University), बोर्डवॉक (Boardwalk), फ्लैटो डिवेलपमेंट्स (Flato Developments), रेवेरा (Revera) और टोरोंटो पियर्सन (Toronto Pearson) के द्वारा प्रायोजित (स्पांसर) किया जा रहा है।

इस सीजन के विक्रेताओं और प्रोग्रामिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए, brampton.ca/markets पर जाएं।

हवाले

“वार्षिक तौर पर ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट के आने से, गर्मी की अनाधिकारिक शुरुआत हो जाती है! ब्रैम्पटन की यह पसंदीदा मार्किट, कम्युनिटी को इकट्ठे लाती है और एक ऐसी परंपरा है, जिसकी मैं हर वर्ष प्रतीक्षा करता हूँ। 11 जून की तारीख याद रखें। आपसे वहां मुलाकात होगी!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मैं, ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट को वापस लौटते देखने और कम्युनिटी तथा लोकल छोटे कारोबारों का जशन मनाने के लिए उत्साहित हूँ। इस सीजनल मार्किट की हिमायत करना जारी रखने के लिए, हमारे उदार प्रायोजकों का धन्यवाद!”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वाईस 9 और 10; चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“चूंकि डाउनटाउन ब्रैम्पटन में रोमांचक परिवर्तन जारी है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम हमारे लोकल विक्रेताओं तथा कारोबारों की हिमायत करें। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की टीम ने बहुत-सी विविध पेशकशों और मनोरंजन के साथ इस शानदार सीजन की योजना बनाई है, जिसका ब्रैम्पटन की संपूर्ण कम्युनिटी को जरूर आनंद आएगा।”

- पॉल मॉरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca